



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61
No. 61

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 7—फरवरी 13, 2004 (माघ 18, 1925)

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 7—FEBRUARY 13, 2003 (MAGHA 18, 1925)

इस भाग में विभिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

[उच्च न्यायालयों, निबंधक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार की संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

केंद्रीय अन्वेषण ज्यू

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जनवरी 2004

सं. डीपी/पर्स.1/2004/224/3/89/94--श्री आर. एच. मूर्ति ने अधिवर्तिता की आपु प्रार्थना कर लेने पर 31 दिसम्बर, 2003 अथवा से कार्यालय अधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ज्यू के पद का कार्यभार त्याग दिया।

एस. डी. वैजल
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)
केंद्रीय अन्वेषण ज्यू

केंद्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 2004

सं. 2/3/04/1340-प्रशासन--केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ज्यू के पुलिस निरीक्षक, श्री गिरीश भट्टाचार्य की आयोग में

प्रतिनिधित्व आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में दिनांक 15.01.2004 (पूर्वाह्न) से सामान्य नियमों एवं शर्तों पर प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

माने वाला
उप सचिव (प्रशासन)

सं. 2/32/03/1341-प्रशासन--केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुभाग अधिकारी एवं निपटन महानिदेशालय के उप निदेशक (आपूर्ति), श्री पी. के. कांचन को आयोग में प्रतिनिधित्व आधार पर तकनीकी परीक्षक (भंडार प्रारंभ एवं वार्षिक निबंधन) के पद पर वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- में दिनांक 15.01.2004 (पूर्वाह्न) से सामान्य नियमों एवं शर्तों पर एक वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त करते हैं।

माने वाला
उप सचिव (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 जनवरी 2004

सं. ओ.दो. 3552/2004-कार्मिक-1--भारत सरकार श्री कर्मवीर सिंह भा.पु.से. (यूपी-75) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो के लिए प्रतिनियुक्ति में पुलिस महानिरीक्षक पद पर सहर्ष नियुक्त करती है।

2. तदनुसार अधिकारी ने पुलिस महानिरीक्षक मध्य सेक्टर, के.रि. पु. बल, के पद का कार्यभार दिनांक 12.01.2004 के पूर्वाह्न में ग्रहण कर लिया है।

मानसिंह रावत

पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2004

सं. ओ.दो. 3640/03-सी.आर.सी.-एम.ओ.--राष्ट्रपति जी, डॉ. (श्रीमती) संगीता मैरी राजाह को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक के.रि.पु.बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 14-12-2003 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 02 बटा., के.रि.पु. बल, में तैनात किया जाता है।

जे. एन. शर्मा

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ.दो. 3641/03-सी.आर.सी.-एम.ओ.--राष्ट्रपति जी, डॉ. कुन्दन कुमार सिंह को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक के.रि. पु. बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 29-12-2003 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 94 बटा., के.रि.पु. बल, में तैनात किया जाता है।

जे. एन. शर्मा

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

महानिदेशालय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 22 जनवरी 2004

सं. ई. 32015(4)/एचबी/2003/कार्मिक 1/05--राष्ट्रपति जी, श्रीमती हरनीत बरार, उप कमान्डेन्ट, के.ओ.सुब यूनिट आईओसी गुवाहाटी का त्याग पत्र दिनांक 01-01-2004 के पूर्वाह्न से स्वीकार करते हैं।

ह./- अपठनीय

महानिदेशक/के.ओ.सुब

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

(कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 22 जनवरी 2004

सं. प्रशा. 1/का.आ.सं.-241-महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व को केन्द्रीय लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में रु. 7500-250-12000 के वेतनमान में लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 02-12-2003 (पूर्वाह्न) से अग्रिम आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

ह./- अपठनीय

उप निदेशक (प्रशासन)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, केन्द्रीय

कोलकाता-700001, दिनांक 31 दिसम्बर 2003

कार्यालय आदेश (गोपनीय) संख्या-50--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता निम्न लेखापरीक्षा अधिकारियों को वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में अस्थायी और स्थानापन्न के रूप में रु. 8000-250-13500/- के वेतनमान में 1-1-2004 (पूर्वाह्न) या उस तिथि से लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, जो भी बाद में हो, नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं. नाम

अनुभाग/स्कंध

(श्री/श्रीमती)

- | | | |
|-----|---------------------------|-----------------------------|
| 1. | भारती गांगुली | आई टी आर ए |
| 2. | कुमार भट्टाचार्या | आई टी आर ए |
| 3. | बलराम गायन | आई टी आर ए |
| 4. | अरविन्द पाल | आई टी आर ए |
| 5. | सूर्य नारायण शीट | शाखा अधिकारी/ए एन आई |
| 6. | विष्णु गोपाल विश्वास | शाखा अधिकारी/ए एन आई |
| 7. | परेश नाथ बंदोपाध्याय | रिकार्ड/स्थान परिवर्तन कक्ष |
| 8. | मौला सलिमुर रहमान | शाखा अधिकारी/ए एन आई |
| 9. | प्रशांत कुमार दास | आई टी आर ए |
| 10. | शमिम अहमद | आर ए ओ/के ओ पी टी |
| 11. | राजरशी नन्दी | शाखा अधिकारी/ए एन आई |
| 12. | विश्वजीत कुमार आचार्य | ओ ए डी |
| 13. | समसुल आलम हाफिज | ओ ए डी |
| 14. | आसिश कुमार बंदोपाध्याय | शाखा अधिकारी/ए एन आई |
| 15. | अरूण कुमार हलदार | आई टी आर ए |
| 16. | सुब्रत कुमार साहा | ओ ए डी |
| 17. | स्थामल कुमार मंडल | सी ई आर ए |
| 18. | बिरेन्द्र मोहन राय | आई टी आर ए |
| 19. | दुरजती प्रसाद बंदोपाध्याय | |

प्रत्येक के सामने लिखित अनुभाग/स्कंध में पदधारित किए रहेंगे। उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे अपने समूह अधिकारियों के पास कर्तव्य हेतु रिपोर्ट करें।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (डी पी एवं ए आर) का.ज्ञा.सं. 1-10-89 स्था (वेतन-1) दिनांक 30-8-89 यथा समय संशोधित के अंतर्गत एफ आर 22(I) (ए) (1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु पदभार ग्रहण करने के एक महीने के भीतर अपना विकल्प दे सकेंगे।

उनके अन्तर वरीयता बाद में निर्धारित की जाएगी।

ह/- अपठनीय
उप निदेशक/प्रशासन

कार्यालय आदेश (गोपनीय) संख्या-52--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता निम्न सहा. लेखापरीक्षा अधिकारियों को लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में अस्थायी और स्थानापन्न के रूप में रु. 7500-230-12000/- के वेतनमान में 1-1-2004 (पूर्वाह) या उस तिथि से लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, जो भी बाद में हो, निवृत्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	अनुभाग/स्कंध
(श्री/श्रीमती)		
1.	अरुण मिश्र	सी आर ए डी
2.	विमलु शेखर नायक	आई टी आर ए
3.	ओरीजित दत्ता	डब्ल्यू ए डी
4.	विवेकानंद झा	आर ए ओ/के ओ पी टी
5.	दीनबन्धु पंडा	सी आर ए डी
6.	आर. विवेक कुमार	आर ए ओ/के ओ पी टी
7.	सदानंद नरकर	सी ई आर ए
8.	पार्थ गोपाल भट्टाचार्य	आई टी आर ए
9.	स्वप्न कुमार धर	आई टी आर ए
10.	मधुमिता चक्रवर्ती	आई टी आर ए
11.	अतनु चक्रवर्ती	आई टी आर ए
12.	राज कुमार गुप्ता	आई टी आर ए
13.	उपल कुमार मंजुमदार	आई टी आर ए
14.	रंजन दास	ओ ए डी
15.	सौमित्र नरकर दे	आई टी आर ए
16.	एस. मोहन	ओ ए डी
17.	देवाशीश चक्रवर्ती	गोपनीय, केन्द्रीय, प्रशि. लेखा एवं पेशन कक्ष
18.	अमिताभ मंडल	आई टी आर ए

उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे अपने समूह अधिकारियों के पास कर्तव्य हेतु रिपोर्ट करें।

सभी 18 कर्मचारी (क्र. सं. 1 से 18) समय-समय पर शाखा कार्यालय अंडमान निकोबार में स्थानांतरित किए जाएंगे।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (डी पी एवं ए आर) का.ज्ञा.सं. 1-10-89 स्था (वेतन-1) दिनांक 30-8-89 यथा समय संशोधित के अंतर्गत एफ आर 22(I) (ए) (1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु पदभार ग्रहण करने के एक महीने के भीतर अपना विकल्प दे सकेंगे।

उनके अन्तर वरीयता बाद में निर्धारित की जाएगी।

ह/- अपठनीय
उप निदेशक/प्रशासन

कार्यालय आदेश (गोपनीय) संख्या-53--प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता निम्न अनुभाग अधिकारियों को सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में अस्थायी और स्थानापन्न के रूप में रु. 7450-225-11500/- के वेतनमान में 1-1-2004 (पूर्वाह) या उस तिथि से लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, जो भी बाद में हो, निवृत्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	अनुभाग/स्कंध
(श्री/श्रीमती)		
1.	अमित दत्ता	स्थान परिवर्तन कक्ष
2.	शुभकर चक्रवर्ती	प्रशा. I
3.	तापस घोष	आई टी आर ए
4.	समीर कुमार भर	सी ई आर ए

उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे अपने समूह अधिकारियों के पास कर्तव्य हेतु रिपोर्ट करें।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (डी पी एवं ए आर) का.ज्ञा.सं. 1-10-89 स्था (वेतन-1) दिनांक 30-8-89 यथा समय संशोधित के अंतर्गत एफ आर 22(I) (ए) (1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु पदभार ग्रहण करने के एक महीने के भीतर अपना विकल्प दे सकेंगे।

उनके अन्तर वरीयता बाद में निर्धारित की जाएगी।

ह/- अपठनीय
उप निदेशक/प्रशासन

महालेखाकार (लेखा व हक) का कर्मस्थान, कर्नाटक

बैंगलूर, दिनांक 1 जनवरी 2004

स्थापना, 1/ए 8/2003/04/341-- महालेखाकार (ले व ह.) ने निम्नलिखित लेखाधिकारियों को पूर्णतया अस्थायी रूप में रुपये 8000-275-13500 के वेतनमान पर दिनांक 01-01-2004 के पूर्वाह से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से (जो भी बाद में हो) अगले आदेश तक वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है :-

श्री वासुदेव राव डी. वी. क्र. सं. 19690514

श्री विजयकुमार के. वी. क्र. सं. 19740542

2. मूल नियमावली के नियम 22(1)(ए)(1) के अनुसार उच्चतर वेतनमान पर वेतन निर्धारण करने के लिए पदोन्नति की तारीख से एक महीने के अंदर उन्हें अपना विकल्प देना होगा।

ह./- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I का कार्यालय, उड़ीसा
भुवनेश्वर, दिनांक 14 जनवरी 2004

स्था. आ.सं. 39--ज्ञापन सं. प्रशा. I (लेप)/17-2 (लेपअ)/भाग-IV/2407, दिनांक 1-1-2004, द्वारा सूचित का.आ.ग. 1211 दिनांक 1-1-2004 के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों ने पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए तिथि से वेतनमान रु. 7500-250-12000/- पर लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं :-

क्र. सं. अधिकारी का नाम	लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार लेने की तिथि
1. श्री एम. अब्दुल हक	1-1-2004 पूर्वाह्न
2. श्री विरेन्द्र चन्द कर	1-1-2004 पूर्वाह्न
3. श्री चैतन्य मण्डल	1-1-2004 पूर्वाह्न

लेखापरीक्षा अधिकारी के संवर्ग पर उनकी पदोन्नति उनके वरिष्ठों के दावे को प्रभावित किए बिना न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय/सी.ए.टी./उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय की शर्त पर की गई है।

ह./- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

स्था.आ.सं. : 40--ज्ञापन सं. प्रशा. (लेप)/17-2(Sr.PS)/2409, दिनांक 1-1-2004, द्वारा सूचित का.आ.ग. 1212 दिनांक 1-1-2004 के अनुपालन में निम्नलिखित निजी सचिव ने पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए तिथि से वेतनमान रु. 7500-250-12000/- पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं :-

क्र. सं. अधिकारी का नाम	वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में कार्यभार लेने की तिथि
1. श्री शुभांशु शेखर होता	1-1-2004 पूर्वाह्न

वरिष्ठ निजी सचिव के संवर्ग पर उनकी पदोन्नति उनके वरिष्ठों के दावे को प्रभावित किए बिना न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय/सी.ए.टी./उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय की शर्त पर की गई है।

ह./- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय उड़ीसा

भुवनेश्वर, दिनांक 9 जनवरी 2004

स्था. आ. सं. 39--दिनांक 1-1-2004 के का.आ.ग. सं. 949 में की गई पदोन्नति को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उड़ीसा ने श्री किशोरंजन महान्ती, लेखा अधिकारी को दिनांक 1-1-2004 (पूर्वाह्न) से रु. 8000-275-13500/- वेतनमान पर वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वर्ग "ख" राजपत्रित) पद पर, उनके वरिष्ठों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सहर्ष स्थानापन्न पदोन्नति प्रदान की है।

यह पदोन्नति अस्थायी है एवं उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में बकाया पड़े मामलों के अंतिम निर्णय पर आधारित है।

अरुण कुमार नन्द
उप महालेखाकार (प्रशासन)

स्था. आ. सं. 40--दिनांक 1-1-2004 के का.आ.ग. सं. 960 में की गई पदोन्नति को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उड़ीसा ने श्री संकर साहू, लेखा अधिकारी को दिनांक 1-1-2004 (पूर्वाह्न) से रु. 8000-275-13500/- वेतनमान पर वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वर्ग "ख" राजपत्रित) पद पर, उनके वरिष्ठों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सहर्ष स्थानापन्न पदोन्नति प्रदान की है।

यह पदोन्नति अस्थायी है एवं उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में बकाया पड़े मामलों के अंतिम निर्णय पर आधारित है।

अरुण कुमार नन्द
उप महालेखाकार (प्रशासन)

लघु उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2004

सं. ए-19018/398/79-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली में उप निदेशक (यांत्रिकी), श्री काहन सिंह को लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत रु. 12000-375-16500 के वेतनमान में हस्त औजार डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नागौर में निदेशक (यांत्रिकी) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 17-12-2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वि. एन. फिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

ज्ञान मंत्रालय
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 5 जनवरी 2004

सं. 263/एस/ए-32013 (एस.ओ.)/2003/19ए--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण श्री वायू. हबेल, भण्डार अधीक्षक (तकनीकी), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पदोन्नति पर भण्डार अधिकारी के रूप में इसी विभाग में रुपये 6500-200-10500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक 16-12-2003 (अपराह्न) से नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

दिनांक 22 जनवरी 2004

सं. 304ए/ए-32013(एस.ओ. ग्रेजी-II)/2003/19ए--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, निम्नलिखित अधीक्षकों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की प्रशासनिक अधिकारी ग्रेजी-II के पद पर पदोन्नति पर इसी विभाग में रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर स्थानापन्न रूप में आगामी आदेशों तक प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यग्रहण की तिथि
01.	श्री टी. के. बसु चौधरी	22.12.2003 (पूर्वाह्न)
02.	श्री के. एम. आचार्य	14.11.2003 (अपराह्न)
03.	श्री धुरवटी मुखर्जी	01.12.2003 (पूर्वाह्न)

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

एन. एच.-4, फरीदाबाद, दिनांक 19 जनवरी 2004

सं. ए-19024/3/97/प्रशा.-1--विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय में कार्यरत श्री के. एम. सुन्दर राव, वरिष्ठ रसायनज्ञ सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31.12.2003 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

ए. के. चोपड़ा
अवर सचिव

सं. ए-19024/2/2004-प्रशा.-1--श्रीमती बी. कामाक्षी को 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में मुख्य रसायनज्ञ के पद पर पदोन्नति किए जाने पर उन्होंने विपणन एवं निरीक्षण की क्षेत्रीय एजेंडा के प्रयोगशाला, चेन्नई में दिनांक 28.11.2003 (पूर्वाह्न) से मुख्य रसायनज्ञ का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

ए. के. चोपड़ा
अवर सचिव

(विस्तार निदेशालय)

वई दिल्ली-110012, दिनांक 20 जनवरी 2004

सं. 2-1/2002-स्था.-I--श्री के. सी. अनेजा, लेखा सहायक, वनस्पति, वेजीटेबल तेल और वस्तु निदेशालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, को विस्तार निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में सहायक लेखा अधिकारी, सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' (राजपत्रित) (अनुसचिवीय) के पद पर, दिनांक 14 जनवरी 2004 के पूर्वाह्न से सामान्य प्रतिनियुक्ति आधार पर, साधारणतः तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

जयदेव कपिला
उप निदेशक (प्रशसन)

भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुम्बई-400085, दिनांक 14 जनवरी 2004

सं. पीडी/2(1)/2002-आर-4/171--राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र में उनके नाम के आगे उल्लिखित कॉलम 3 से 5 में दर्शाए गए पद, वेतनमान तथा नियुक्ति तिथि में, आगामी आदेशों तक अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्रमांक	नाम	नियुक्ति पद	वेतनमान	नियुक्ति तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री सुनील श्रीकांत श्रीखंडे	वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर (डी)	10000-325-15200	02.12.2003 (पूर्वाह्न)
2.	श्री पाटणकर नंदकुमार डोंडीराम	वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर (सी)	8000-275-13500	24.12.2003 (पूर्वाह्न)

ऑन्टेनी हिस्सा
नियंत्रक

दिनांक 20 जनवरी 2004

सं. पीडी/13(9)(3)/2003-आर-4/219--राष्ट्रपति, श्री अमित कुमार पवार को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड 'सी' के पद पर रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं।

अँन्टेनी डिसा
नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400 001, दिनांक 12 जनवरी 2004

सं. 20/13(1)/2001-सीसीएस/4--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री आर. जी. राघवन, सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500--10,500/-), परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद को दिनांक 19.05.2003 के अपराह्न से दिनांक

27.06.2003 के पूर्वाह्न तक की अवधि हेतु तदर्थ आधार पर उसी यूनिट में प्रशासन अधिकारी-III (वेतनमान रु. 10,000--15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

सं. 21/10(1)/2001-सीसीएस/5--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री एस. सांबत, बरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 8,000--13,500/-), परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, कोलकाता को दिनांक 16.04.2003 (पूर्वाह्न) से दिनांक 24.06.2003 (अपराह्न) तक की अवधि हेतु तदर्थ आधार पर उसी केन्द्र में उप लेखा नियंत्रक (वेतनमान रु. 10,000--15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

मुम्बई-400001, दिनांक 16 जनवरी 2004

सं. 1/6(5)/2003-पावर/55.--राष्ट्रपति, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एनपीसीआईएल) में स्थायी प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले इस विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों को, दिनांक 01.08.2003 से उनके सामने उल्लिखित ग्रेडों तथा निम्न विवरणानुसार स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करते हैं :--

सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	जिस ग्रेड में पदोन्नत	वेतनमान (रु.)	यूनिट
(सर्वश्री/श्रीमती)					
1.	ए.के. घोष	वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर-'एफ'	वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर-'जी'	16400-450-20000	एन.पी.सी.आई. एल. मुख्यालय
2.	एम.सी. त्रिपाठी	वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर-'एफ'	वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर-'जी'	16400-450-20000	एन.पी.सी.आई. एल. मुख्यालय
3.	अर्जुन राम	वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर-'एफ'	वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर-'जी'	16400-450-20000	आर.ए.पी.पी. 3 & 4
4.	टी.वी. तम्पी	वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर-'ई'	वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर-'एफ'	14300-400-18300	टी.ए.पी.एस.
5.	जे.बी. चौबे	वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर-'ई'	वैज्ञानिक अधिकारी/ इंजीनियर-'एफ'	14300-400-18300	के.ए.पी.एस.

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके द्वारा धारित निम्न पद का कार्यभार दिनांक 01.08.2003 (पूर्वाह्न) से त्याग दिया है।

उमा महादेवन
उप सचिव

(प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र)

इन्दौर-452013, दिनांक 20 जनवरी 2004

क्र. केट/प्रशा./भ-902/90.---भारत के राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित पदक्रम एवं दिनांक की पूर्वाह्न से स्थाई रूप से अगामी आदेशों तक प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में नियुक्त करते हैं :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद	दिनांक
1	2	3	4
1.	डॉ. एस. एम. गुप्ता	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	01.04.2003
2.	श्री मनीष बागडे	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
3.	श्री संतोष कुसाव चौहान	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
4.	श्री अमित चौहान	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2001
5.	श्री रमाकांत बिस्वाल	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
6.	श्री अखिलेश कुमार कार्नेवार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
7.	श्री राकेश कुमार सोनी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.04.2002
8.	श्रीमती भावना एन. मेड़	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
9.	श्री संजीव करमाकर	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
10.	श्री नागेश्वर सिंह	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
11.	श्री प्रवीण गौरे	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
12.	श्री संजीव रामटेके	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
13.	श्री विमल प्रसाद शरवरे	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
14.	श्री पंकज कुमार गोस्वाल	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
15.	श्री एच. अशोक	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
16.	श्री जगदीश चंकर भाखरे	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
17.	श्री जे. नागेश्वर राव	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
18.	श्री अमरेंद्र सिंह	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
19.	श्री विशाल प्रभाकर धामगवे	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
20.	श्री ऋषीपाल यादव	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.10.2002
21.	श्री चंद्रकांत	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
22.	श्री अमलेशु शर्मा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
23.	श्री मुकेश कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
24.	श्री राजेश कुमार देव	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
25.	श्री अरुण लाल चक्रवर्ती	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
26.	श्री अमर दामगुप्ता	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
27.	श्री शैलेश्वर देव सिंह	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
28.	श्री नरेन्द्र कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
29.	श्री अनुसंग बंसल	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	-वही-
30.	श्री मनीष कुमार शर्मा	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	01.04.2003
31.	श्री राजेश्वर सिंह दूहान	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	-वही-
32.	श्री ए. एम. गुप्ता	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	-वही-

1	2	3	4
33.	श्री आलोक जैन	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	01.04.2003
34.	श्री एस. सेन्थिल कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	-वही-
35.	श्री ए. सी. होलीकट्टी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	-वही-
36.	श्री एन. जे. ...	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	-वही-
37.	श्री लक्ष्मीकान्त आदित्य	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	-वही-
38.	श्री विनोद कुमार सैनी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	-वही-
39.	डॉ. पार्थसारथी घोष	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	-वही-
40.	श्री सुभाजीत दत्त	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	-वही-
41.	श्रीमती सुपर्णा पाल	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	-वही-
42.	श्री विजय कुमार दीक्षित	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	-वही-

ए. एम. पारीक
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

(परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र)

कोलकाता-700064, दिनांक 15 जनवरी 2004

सं. वीईसीसी/पदोन्नति (अगस्त)/2003/3--राष्ट्रपति प्रसन्नता पूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र पर (रु. 12,000-375-16,500/-) के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (ई) के पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए 1 अगस्त 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्र. नाम	पदनाम	वेतनमान
सं.		
1. श्री विश्वजीत सरकार	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	रु.10000-325-15200
2. श्री टी. के. भट्टाचार्य	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	रु.10000-325-15200
3. श्री दुलाल गुहा	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	रु.10000-325-15200

एन. श्रीनिवास राव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. वीईसीसी/पदोन्नति (अगस्त)/2003/4--राष्ट्रपति प्रसन्नता पूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र पर (रु. 10,000-325-15,200/-) के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (डी) के पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए 1 अगस्त 2003

के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्र. नाम	पदनाम	वेतनमान
सं.		
1. श्री मगिर अहमद	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	रु.8000-275-13500
2. श्री जे. देवनाथ	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	रु. 8000-275-13500

एन. श्रीनिवास राव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. वीईसीसी/पदोन्नति (अगस्त)/2003/5--राष्ट्रपति प्रसन्नता पूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक सहायक/डी को इसी केन्द्र पर (रु. 8,000-275-13,500/-) के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (सी) के पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए 1 सितम्बर 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्र. नाम	पदनाम	वेतनमान
सं.		
1. श्री डी. के. चक्रवर्ती	वैज्ञानिक सहायक/डी	रु.7,450-225-11,500

एन. श्रीनिवास राव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

(क्रय और भंडार निदेशालय)

सुंवाई-400094, दिनांक 7 जनवरी 2004

संदर्भ क्रम/10015/भर्ती/133--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने भंडारी श्री एम. आर. सरकार को इसी

निदेशालय में दिनांक 27-10-2003 (पूर्वाह्न) से 28-11-2003 (अपराह्न) तक, रुपए 6500-200-10500/- के वेतनमान में सहायक भंडार अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

आर. सुंदरराजन
प्रशासनिक अधिकारी-III

दिनांक 12 जनवरी 2004

संदर्भ क्रमनि/10015/भर्ती/197--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने भंडारी श्रीमती शारदा मेनन को इसी निदेशालय में दिनांक 29-10-2003 (पूर्वाह्न) से 28-11-2003 (अपराह्न) तक, रुपए 6500-200-10500/- के वेतनमान में सहायक भंडार अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

आर. सुंदरराजन
प्रशासनिक अधिकारी-III

दिनांक 19 जनवरी 2004

संदर्भ क्रमनि/10015/भर्ती/323--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने भंडारी श्री एस. मनोहरन को इसी निदेशालय में दिनांक 10-11-2003 (पूर्वाह्न) से 12-12-2003 (अपराह्न) तक, रुपए 6500-200-10500/- के वेतनमान में सहायक भंडार अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

आर. सुंदरराजन
प्रशासनिक अधिकारी-III

अन्तरिक्ष विभाग

(विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र)

तिरुवनंतपुरम-695022, दिनांक 29 दिसम्बर 2003

सं. वी एस एस सी/स्था/एफ/1/17--निबंधक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वी एस एस सी) एतद्वारा श्री सतीश कुमार पांडेय को सहायक भंडार अधिकारी के पद पर रु. 6500-200-10500/- के वेतनमान में वी एस एस सी में 13-10-2003 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश होने तक वी एस एस सी में पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

एन. गोपीनाथन
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (स्थापना)

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स

हब फार्मास्यूटीकल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

मुंबई-400002, दिनांक 22 जनवरी 2004

सं. 220/30708/560-269--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि

मै. हब फार्मास्यूटीकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

रघुम सुन्दर
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स
टोरनाडो एप्लीएन्सेस लिमिटेड के मामले में।

मुंबई-400002, दिनांक 22 जनवरी 2004

सं. 240/19885/560-270--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मै. टोरनाडो एप्लीएन्सेस लिमिटेड का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

रघुम सुन्दर
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स
लोक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के मामले में।

मुंबई-400002, दिनांक 22 जनवरी 2004

सं. 237/99121/560-271--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मै. लोक पावर कारपोरेशन लिमिटेड का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

रघुम सुन्दर
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स
वासवानी टॉयर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

मुंबई-400002, दिनांक 22 जनवरी 2004

सं. 272/95730/560-272--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मै. वासवानी टॉयर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

रघुम सुन्दर
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स
वास्तविक डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

मुंबई-400002, दिनांक 22 जनवरी 2004

सं. 270/94064/560-273--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि

मै. वामनजी डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स
दि स्कूलनेट ट्रस्ट मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड के मामले में।

मुंबई-400002, दिनांक 22 जनवरी 2004

सं. 259/129945/560-274--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मै. दि स्कूलनेट ट्रस्ट मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स
श्री राधाकृष्ण कॉम्प्युटेक प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

मुंबई-400002, दिनांक 22 जनवरी 2004

सं. 268/106485/560-275--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मै. श्री राधाकृष्ण कॉम्प्युटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स
जोगेन्द्र सी. ठक्कर एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

मुंबई-400002, दिनांक 22 जनवरी 2004

सं. 267/14411/560-276--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मै. जोगेन्द्र सी. ठक्कर एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स
लिटीकोन नावेल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

मुंबई-400002, दिनांक 22 जनवरी 2004

सं. 265/58760/560-277--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि

मै. लिटीकोन नावेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स
प्रभुदयाल रामकिशन इनवेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

मुंबई-400002, दिनांक 22 जनवरी 2004

सं. 264/86529/560-278--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मै. प्रभुदयाल रामकिशन इनवेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स
स्नोवॉल ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड के मामले में।

मुंबई-400002, दिनांक 22 जनवरी 2004

सं. 263/125907/560-279--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मै. स्नोवॉल ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स
न्यूपोर्ट ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

मुंबई-400002, दिनांक 22 जनवरी 2004

सं. 273/75226/560-280--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मै. न्यूपोर्ट ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सी. डी. सोजा क्लीयरिंग एण्ड फारवर्डिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 22 जनवरी 2004

सं. 274/51028/560-281--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मै. सी. डी. सोजा क्लीयरिंग एण्ड फारवर्डिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लोदाया शेयर सर्विसेज लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 22 जनवरी 2004

सं. 277/79678/560-284--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मै. लोदाया शेयर सर्विसेज लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उरान्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 22 जनवरी 2004

सं. 276/120348/560-282--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मै. उरान्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पी एण्ड ओ कंटेनर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 22 जनवरी 2004

सं. 289/36315/560-285--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मै. पी एण्ड ओ कंटेनर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बालाजी पूजा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 22 जनवरी 2004

सं. 275/94576/560-283--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मै. बालाजी पूजा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्टार फूट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 22 जनवरी 2004

सं. 287/14490/560-286--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मै. स्टार फूट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 22nd January 2004

No. F. 6/2004-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote Shri Chatar Singh, Assistant as officiating Section Officer on ad hoc basis against a purely short term temporary vacancy available on account of deputation of an officer in the higher cadre, with effect from the forenoon of January 16, 2004 until further orders.

ASHOK KUMAR
Joint Registrar (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 16th January 2004

No. DP/Pers.-I/2004/3/89/94—Shri R.N. Murthy relinquished charge of the post of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of December 31, 2003 on attaining the age of superannuation.

S.D. BAIJAL
Administrative Officer (Pers.)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 21st January 2004

No. 2/3/04-Admn. 1277—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Girish Bhardwaj, Inspector of Police, CBI as Section Officer in the Commission on deputation basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500/- w.e.f. the forenoon of 15 January 2004 on usual terms and conditions of deputation initially for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

MANGE LAL
Deputy Secretary (Admn.)
for Central Vigilance Commissioner

No. 2/32/03/1341-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri P. K. Kanchan, Deputy Director (Supplies), Directorate General of Supplies and Disposals as Technical Examiner (Stores Procurement and Inventory Control) in the Commission, on deputation basis, in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. the forenoon of 16 January 2004 on usual terms and conditions for a period of four years.

MANGE LAL
Deputy Secretary (Admn.)
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-03, the 15th January 2004

No. O. II. 3552/2004 Pers.I—The Govt. of India has appointed Shri Karamvir Singh, IPS(UP: 75) as Inspector General of Police in CRPF for a period of five years from the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. The Officer accordingly took over the charge of the post of Inspector General of Police, CRPF, Central Sector in the forenoon of 12 January 2004.

MAN SINGH RAWAT
DIGP (Pers.)

New Delhi, the 17th January 2004

No. O. II-3640/03-CRC(MOs).—The President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Sangita Mary Rajah as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 14.12.2003 till further order. She is posted to 2 BN, CRPF.

J.N. SHARMA
Addl. DIGP (Pers. I)

No. O. II-3641/03-CRC(MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Kundan Kumar Singh as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 29.12.2003 till further order. He is posted to 94 Bn, CRPF.

J.N. SHARMA
Addl. DIGP (Pers. I)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 22nd January 2001

No. E-32015(4)/HB/2003/Pers.I.—The President is pleased to accept the resignation of Mrs. Harneet Brar, Deputy Commandant CISF Unit IOC Guwahati with effect from 01.01.2004 (Forenoon).

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
CENTRAL REVENUES)

New Delhi-110002, the 22nd January 2004

Admn. I/O.O. No. 243.—Director General of audit, Central Revenues, New Delhi hereby appoints Sh. S.D. Ahluwalia, Assistant Audit Officer of this office to officiate

as Audit Officer in the scale of Rs. 7500-230-12000/- with effect from 02.12.2003 (F/N) until further orders.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Director (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT : CENTRAL

Kolkata-700001, the 31st December 2003

Office Order (Confidential) No. 50.—Principal Director of Audit, Central, Kolkata has been pleased to appoint the following Audit Officers as Senior Audit Officers in a temporary and officiating capacity in the scale of Rs. 8000-275-13900 with effect from 01.01.2004(FN) or from the date from which they take over charge as Senior Audit Officer whichever is later :—

Sl.No.	Name	Section/Wing
	S/Shri/Smt.	
1.	Bharati Ganguly	ITRA
2.	Kumar Bhattacharyya	ITRA
3.	Balaram Gayen	ITRA
4.	Arabinda Pal	ITRA
5.	Surya Narayan Shit	Branch Office/ANI
6.	Bishnu Gopal Biswas	Branch Office/ANI
7.	Parash Nath Bandopadhyay	Record/Shifting Cell
8.	Molla Selimur Rahman	Branch Office/ANI
9.	Prasanta Kumar Das	ITRA
10.	Shamim Ahmed	RAG/KOPT
11.	Rajesh Nandi	Branch Office/ANI
12.	Biwajit Kumar Acharyya	OAD
13.	Samsul Alam Hatiz	OAD
14.	Ashish Kumar Mukhopadhyay	Branch Office/ANI
15.	Arun Kumar Halder	ITRA
16.	Subrata Kumar Saha	OAD
17.	Syamal Kumar Mandal	CERA
18.	Birendra Mohan Roy	ITRA
19.	Dhrujati Prasad Bandopadhyay	Branch Office/ANI

They will remain posted in the section/wing as noted against each. They are directed to report for duty to their respective Group Officers.

They will exercise option within one month from the date of taking over charge for fixation of pay under FR 22(1)(a)(1) as required under Government of India, Ministry of Home Affairs (DP & AR) O.M. No. 1.10.89-Estt. (Pay-I) dated 30.08.89 as amended from time to time.

Their seniority will be fixed in due course.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Director (Admn.)
Central: Kolkata

Office Order (Confidential) No. 52.—Principal Director of Audit, Central, Kolkata has been pleased to appoint the following eighteen Assistant Audit Officers as Audit Officers in a temporary and officiating capacity in the scale of Rs. 7500-230-12000/- with effect from 01.01.2004(FN) or from the date from which they take over charge as Audit Officers whichever is later :—

Sl.No.	Name	Section/Wing
	S/Shri/Smt.	
1.	Arun Moitra	CRAD
2.	Bibhansu Shekhar Nayak	ITRA
3.	Aurjit Dutta	WAD
4.	Vivekanand Jha	RAG/KOPT
5.	Dinabandhu Panda	CRAD
6.	R. Vinod Kumar	RAG/KOPT
7.	Sadananda Naskar	CERA
8.	Partha Gopal Bhattacharya	ITRA
9.	Swapan Kumar Dhar	ITRA
10.	Smt. Madhumita Banerjee	ITRA
11.	Atanu Chakraborty	ITRA
12.	Raj Kumar Gupta	ITRA
13.	Utpal Kumar Majumder	ITRA
14.	Ranjan Das	OAD
15.	Saumitra Sankar De	ITRA
16.	S. Mohan	OAD
17.	Debajish Chakraborty	Central, Central, Trg. Acc. & Pen. cell.
18.	Amritava Mondal	ITRA

They are directed to report for duty to their respective Group Officers.

All the eighteen officials (Sl.No. 1 to 18) will be transferred to the Branch Office at ANI/Post Blr. in due course. Posting orders with specific date of transfer will follow.

They will exercise option within one month from the date of taking over charge for fixation of pay under FR 22 1(a)(1) as required under Government of India, Ministry of Home Affairs (DP & AR) O.M. No. 1/10/89-Estt. (Pay-I) dated 30.08.89 as amended from time to time.

Their inter-se-seniority will be fixed in due course.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Director (Admn.)
Central: Kolkata

Office Order (Confidential) No. 53.—Principal Director of Audit, Central, Kolkata has been pleased to appoint the following four Section Officers as Assistant Audit Officers in a temporary and officiating capacity in the scale of Rs. 7450-225-11900/- with effect from 01.01.2004

(F.N.) or from the date from which they take over charge as Assistant Audit Officer whichever is later :—

Sl.No.	Name	Section/Wing
	S/Shri/Smt.	
1.	Amit Dutta	Shifting Cell
2.	Suvankar Chakraborty	Admn. I
3.	Tapash Ghosh	ITRA
4.	Samir Kumar Bhar	CERA

They are directed to report for duty to their respective Group Officers.

They will exercise option within one month from the date of taking over charge for fixation of pay under FR 22 1(a)(1) as required under Government of India, Ministry of Home Affairs (DP & AR) O.M. No. 1/10/89-Estt. (Pay-I) dated 30.08.89 as amended from time to time.

Their inter-se-seniority will be fixed in due course.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Director (Admn.)
Central: Kolkata

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) KARNATAKA

Bangalore, the 1st January 2004

No. ES I/A 8/2003-2004/341.—The Accountant General (A&E) is pleased to promote the following Accounts Officers as Senior Accounts Officers carrying the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500 with effect from 01.01.2004 FN or from the date of assuming charge whichever is later until further orders :—

Sl. No.	Name	Employee Code Number	Remarks
1.	Sri Vasudeva Rao D.V.	19690514	—
2.	Sri Vijayakumar K.V.	19740542	—

02. Option may be exercised by them for fixation of pay in the higher grade under Rule FR 22(I)(a)(1) within one month from the date of this Order.

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-I, ORISSA

Bhubaneswar, the 14th January 2004

E.O. No. 39.—In pursuance of OOC No. 1211 dt. 01.01.2004, communicated vide Memo No. Admn-I(Au)17-2(AO)/Vol.IV/2407 dt. 01.01.2004, the following Assistant Audit Officers on their promotion have assumed

charge as Audit Officer in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the date indicated against each :—

Sl. No.	Name of the Officer taken over charge as Audit Officer	Date of Taking over charge as Audit Officer
	S/Shri	
1.	Md. Abdul Haque	01.01.2004 FN
2.	Birendra Chandra Kar	01.01.2004 FN
3.	Chaitanya Mandal	01.01.2004 FN

The promotion to the cadre of Audit Officer is subject to the final decision of the Hon'ble High Court/C.A.T/Supreme Court on the cases subjudice in the courts and without prejudice to the claims of their seniors.

Y. N. THAKARE
Sr. Dy. Accountant General/Admn.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-I, ORISSA

Bhubaneswar, the 14th January 2004

E.O. No. 40.—In pursuance of OOC No. 1212 dt. 01.01.2004, communicated vide Memo No. Admn-I(Au)17-2(Sr.PS)/2409. dt. 01.01.2004, the following Private Secretary on his promotion has assumed charge as Sr. Private Secretary in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000/- with effect from the date indicated against each :—

Sl. No.	Name of the Officer taken over charge as Sr. Private Secretary.	Date of Taking over charge as Sr. Private Secretary
1.	Shri Subhansu Sekhar Hota	01.01.2004 FN

The promotion to the cadre of Sr. Private Secretary is subject to the final decision of the Hon'ble High Court/C.A.T/Supreme Court on the cases subjudice in the courts and without prejudice to the claims of their seniors.

Y. N. THAKARE
Sr. Dy. Accountant General/Admn.

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), ORISSA

Bhubaneswar, the 09th January 2004

E.O. No. 39.—Consequent on his acceptance of offer of promotion vide this office O.O.C. No. 949 dated 01.01.2004, the Accountant General Orissa has been pleased to allow Shri Chittaranjan Mohanty, Accounts Officer to officiate as Sr. Accounts Officer (Group 'B' Gazetted) in the scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with

effect from 01.01.2004 (F.N.) without prejudice to the claim of his seniors.

The promotion is on temporary basis subject to the final decision of the Supreme Court/High Court/CAT, if any.

A. K. NANDA
Dy. Accountant General (Admn.)

E.O. No. 40.—Consequent on his acceptance of offer of promotion vide this office O.O.C. No. 949 dated 01.01.2004, the Accountant General Orissa has been pleased to allow Shri Sankar Sahoo, Accounts Officer to officiate as Sr. Accounts Officer (Group 'B' Gazetted) in the scale of Rs. 8000-275-13500/- with effect from 01.01.2004 (F.N.) without prejudice to the claim of his seniors.

The promotion is on temporary basis subject to the final decision of the Supreme Court/High Court/CAT, if any.

A. K. NANDA
Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 16th January 2004

No. A-19018/398/79-Admn(G).—The President is pleased to appoint Shri Kahan Singh, Deputy Director (Mechanical), Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi as Director (Mechanical) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 in Hand Tool Design Development & Training Centre, Nagaur with effect from the forenoon of 17.12.2003 until further orders.

S. V. N. PILLAI
Dy. Dir. (Admn.)

KHAN MANTRALAYA
(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Kolkata-700 016, the 05th January 2004

No. 263/S/A-32013(SO)/2003/19A.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee the Director General, Geological Survey of India is pleased to appoint Shri Y. Habel, Stores Supdt. (Tech), Geological Survey of India on promotion as Stores Officer on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 6,500-200-

10,500/- in the same Department on regular basis with effect from 16.12.2003 (AN) until further orders.

S.K. SINHA
Sr. Admn. Officer
for Dy. Dir. Gen. (P)

Kolkata-700 016, the 22nd January 2004

No. 304A/A-32013(A.O. Gr.II)/2003/19A.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee the Director General, Geological Survey of India is pleased to appoint the following Superintendents, Geological Survey of India to the post of Administrative Officer Grade II on promotion in the same Department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in an officiating capacity with effect from the date shown against each, until further orders :—

Sl.No.	Name of the officer	Date of joining
1.	Shri T.K. Basu Chowdhury	22.12.2003 (AN)
2.	Shri K.N. Acharyya	14.11.2003 (AN)
3.	Shri Dhurjati Mukherjee	01.12.2003 (FN)

S.K. SINHA
Sr. Admn. Officer
for Dy. Dir. Gen.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPTT. OF AGRI. & COOPERATION)
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

N.H.-IV, Faridabad, the 09th January 2004

No. A-19024/3/97-A.I.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Sh. K.M. Sundara Rao, Senior Chemist in the Dte. of Marketing & Inspection has retired from Govt. Service w.e.f. 31.12.2003 (AN).

A.K. CHOPRA
Under Secy.

The 20th January 2004

No. A-19024/2/2004-A.I.—Consequent upon her promotion to the post of Chief Chemist in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/-, Smt. V. Kamakshi has joined duty as Chief Chemist in the Dte. of Marketing & Inspection, Regional Agmark Laboratory, Chennai, w.e.f. 28.11.2003 (forenoon).

A.K. CHOPRA
Under Secy.

(DIRECTORATE OF EXTENSION)

New Delhi-110 012, the 20th January 2004

No. 2-1/2002-Estt(I).—Sh. K.C. Aneja, Accounts Assistant, Directorate of Vanaspathi Vegetable Oils and Fats, Department of Food & Public Distribution, is appointed to the post of Assistant Accounts Officer, General Central Service, Group-B (Gazetted) (Ministerial) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- in the Directorate of Extension, Department of Agriculture & Cooperation, with effect from the forenoon of 14th January 2004, on usual deputation basis for a period ordinarily not exceeding three years or until further orders, whichever is earlier.

J.D. KAPILA
Dy. Dir. (Admn.)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 14th January 2004

No. PD/2/(1)/2002/R-IV/171.—President is pleased to appoint the undermentioned individuals in Bhabha Atomic Research Centre to the posts in the scale of pay with effect from the date of appointment as shown in column 3 to 5, in a temporary capacity until further orders :—

Name	Appointed as	Scale of Pay (Rs.)	Date of appointment
1	2	3	4
Shri Sunil Shrikant Shrikhande	Scientific Officer Engineer Grade 'D'	10000-325-15200	02.12.2003 (FN)
Shri Patankar Nandkumar Dhondiram	Scientific Officer Engineer Grade 'C'	8000-275-13500	24.12.2003 (FN)

ANTHONY DE SA
Controller

The 20th January 2004

No. PD/8(2)/2002-R-IV/219.—The President is pleased to appoint Shri Amit Kumar Pawar, as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in Bhabha Atomic Research Centre in a temporary capacity with effect from the forenoon of 29th October, 2003 until further orders.

ANTHONY DE SA
Controller

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 12th January 2004

No. 20/13(1)/2001-CCS/4.—The President is pleased to appoint Shri R.G. Raghavan, Assistant Personnel Officer

(Scale of pay Rs. 6500-10500), Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research of this Department as Administrative Officer-III (Scale of pay Rs. 10000-15200) in the same Unit on ad-hoc basis for the period from 19.05.2003 (AN) to 27.06.2003 (FN).

SOBHA DEVI N.
Under Secy.

No. 21/10(1)/2001-CCS/5.—The President is pleased to appoint Shri S. Sambath, Sr. Accounts Officer (Scale of pay Rs. 8000-13500), Variable Energy Cyclotron Centre, Kolkata of this Department as Deputy Controller of Accounts (Scale of pay Rs. 10000-15200) in the same Centre on ad-hoc basis for the period from 16.04.2003 (FN) to 24.06.2003 (AN).

SOBHA DEVI N.
Under Secy.

Mumbai-400 001, the 16th January 2004

No. 1/6(5)/2002-Power/55.—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers of this Department who are on permanent deputation to the Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL), to the grades as mentioned against each and as detailed below in an officiating capacity w.e.f. 01.08.2003 :—

Name	Present Grade	Promoted to Grade	Scale of Pay (Rs.)	Unit
S/Shri A.K. Ghosh	Scientific Officer/Engineer-F	Scientific Officer/Engineer-G	16400-450 20000	NPCIL HQ
M.C. Tripathi	Scientific Officer/Engineer-F	Scientific Officer/Engineer-G	16400-450 20000	NPCIL HQ
Arjun Ram	Scientific Officer/Engineer-F	Scientific Officer/Engineer-G	16400-450 20000	RAPP 3&4
T.V. Thampi	Scientific Officer/Engineer-E	Scientific Officer/Engineer-F	14300-400 18300	TAPS
J.B. Choube	Scientific Officer/Engineer-E	Scientific Officer/Engineer-F	14300-400 18300	KAPS

The above officers relinquished charge of the lower post held by them w.e.f. 1.8.2003 (FN).

UMA MAHADEVAN
Dy. Secy.

(CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY)

Indore-452 013, the 20th January 2004

No. CAT/2000-Adm/R-902(1)/90.—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers in a

substantive capacity to the grade and with effect from the date indicated against each in Centre for Advanced Technology, Indore :—

S.No.	Name	Design	w.e.f.
1	2	3	4
1.	Dr. S.M. Gupta	SO/E	1.04.2001
2.	Shri Manish Bagre	SO/C	-do-
3.	Shri Santosh Kumar Chauhan	SO/C	-do-
4.	Shri Amit Chauhan	SO/C	1.10.2001
5.	Shri Ramakanta Biswal	SO/C	-do-
6.	Shri Akhilesh Kumar Karnewar	SO/C	-do-
7.	Shri Rakesh Kumar Soni	SO/C	1.04.2002
8.	Smt. Bhavna N. Moth	SO/C	-do-
9.	Shri Sanjib Karmakar	SO/C	-do-
10.	Shri Nageshwar Singh	SO/C	-do-
11.	Shri Praveen Gause	SO/C	-do-
12.	Shri Sanjiv Ramteke	SO/C	-do-
13.	Shri Vimal Prasad Jharware	SO/C	-do-
14.	Shri Pankaj Kumar Gothwal	SO/C	-do-
15.	Shri H. Ashoka	SO/C	-do-
16.	Shri Jagdish Shankar Pakhare	SO/C	-do-
17.	Shri J. Nageswar Rao	SO/C	-do-
18.	Shri Amrendra Singh	SO/C	-do-
19.	Shri Vishal Prabhakar Dhangayee	SO/C	-do-
20.	Shri Rishi Pal Yadav	SO/C	1.10.2002
21.	Shri Chander Kant	SO/C	-do-
22.	Shri Anandendu Sharma	SO/C	-do-
23.	Shri Mukesh Kumar	SO/C	-do-
24.	Shri Rajendra Kumar Deo	SO/C	-do-
25.	Shri Arup Lal Chakraborty	SO/C	-do-
26.	Shri R. Dasgupta	SO/C	-do-
27.	Shri Shreyshkar Dev Singh	SO/C	-do-
28.	Shri Narendra Kumar	SO/C	-do-
29.	Shri Anurag Bansal	SO/C	-do-
30.	Shri Manish Kumar Sharma	SO/D	1.04.2003
31.	Shri Rajvir Singh Deohan	SO/D	-do-
32.	Shri A.M. Gupta	SO/D	-do-
33.	Shri Alok Jain	SO/D	-do-
34.	Shri S Senthil Kumar	SO/D	-do-

1	2	3	4
35.	Shri A.C. Holikatti	SO/D	1.04.2003
36.	Shri N.J. Bhange	SO/D	-do-
37.	Shri Lakshmikanta Aditya	SO/D	-do-
38.	Shri Vinod Kumar Sarai	SO/D	-do-
39.	Dr. Parthasarthi Ghosh	SO/D	-do-
40.	Shri Subhajit Dutta	SO/D	-do-
41.	Smt. Suparna Pal	SO/D	-do-
42.	Shri Vijay Kumar Dixit	SO/D	-do-

J.M. PAREEK
Chief Administrative Officer

(VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE)

Kolkata-700 064, the 15th January 2004.

No. VECC/Prom.(Aug.)/2003/177.—The President of India is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata as Scientific Officer/E (Grade : Rs. 12000-375-16500) in the same Centre with effect from the forenoon of August 01, 2003 in an officiating capacity, until further orders :—

Sl.No.	Name	Post held at Present	Grade
	S/Shri		Rs.
1.	Biswajit Sarker	Scientific Officer/D	10000-325-15200
2.	T.K. Bhattacharya	Scientific Officer/D	10000-325-15200
3.	Dulal Gaha	Scientific Officer/D	10000-325-15200

N. SRINIVASA RAO
Chief Administrative Officer

No. VECC/Prom.(Aug.)/2003/178.—The President of India is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata as Scientific Officer/D (Grade : Rs. 10000-325-15200) in the same Centre with effect from the forenoon of August 01, 2003 in an officiating capacity, until further orders.

Sl. No.	Name	Post held at Present	Grade
1.	Shri Manir Ahammed	Scientific Officer/C	Rs. 8000-275-13500
2.	Shri J. Dobaath	Scientific Officer/C	Rs. 8000-275-13500

N. SRINIVASA RAO
Chief Administrative Officer

No. VECC/Prom.(Aug.)/2003/179.—The President of India is pleased to appoint the undermentioned Scientific Assistant/D of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata as Scientific Officer/C (Grade : Rs. 8000-275-13500) in the same Centre with effect from the forenoon of August 01, 2003 in an officiating capacity, until further orders :—

Sl.No.	Name	Post held at Present	Grade
Rs.			
1.	Shri D.K. Chakraborty	Scientific Assistant/D	7450-225-11500

N. SRINIVASA RAO
Chief Administrative Officer

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400 094, the 07th January 2004

No. DPS/10015/Rectt./133.—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy has appointed Shri M.R. Sarkar, Storekeeper, CSU, DPS, Mumbai, as Assistant Stores Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 on an ad-hoc basis in the same Directorate with effect from 27.10.2003 (FN) to 28.11.2003 (AN).

R. SUNDARARAJAN
Administrative Officer-III

The 12th January 2004

No. DPS/10015/Rectt./197.—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy has appointed Smt. Shyamala Menon, Storekeeper, CSU, DPS, Mumbai, as Assistant Stores Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 on an ad-hoc basis in the same Directorate with effect from 29.10.2003 (FN) to 28.11.2003 (AN).

R. SUNDARARAJAN
Administrative Officer-III

The 19th January 2004

No. DPS/10015 Rectt./323.—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy has appointed Shri S. Manoharan, Storekeeper, CSU, DPS, Mumbai, as Assistant Stores Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 on an ad-hoc basis in the same Directorate with effect from 10.11.2003 (FN) to 12.12.2003 (AN).

R. SUNDARARAJAN
Administrative Officer-III

DEPARTMENT OF SPACE (VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE)

Thiruvananthapuram-695022, the 29th December 2003

No. VSSC/EST/F/1(17).—Controller, Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) hereby appoints on promotion Shri Satish Kumar Pandey as Assistant Stores Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- in VSSC with effect from 13.10.2003 (FN), until further orders.

N. GOPINATHAN
Senior Administrative Officer

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hub Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 22nd January 2004

No. 220/30708/560-269.—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hub Pharmaceuticals Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tornado Appliances Ltd.

Mumbai-400002, the 22nd January 2004

No. 240/19885/560-270.—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tornado Appliances Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lok Power Corporation Ltd.

Mumbai-400002, the 22nd January 2004

No. 237/99121/560-271.—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lok Power Corporation Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vaswani Towers Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 22nd January 2004

No. 272/95730/560-272.—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vaswani Towers Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vaswani Development Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 22nd January 2004

No. 270/94064/560-273.—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vaswani Development Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. The Schoolnet Trust Management Co. Ltd.

Mumbai-400002, the 22nd January 2004

No. 269/129945/560-274.—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. The Schoolnet Trust Management Co. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Radhakrishna Computech Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 22nd January 2004

No. 268/106485/560-275.—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shri Radhakrishna Computech Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jogendra C. Thakkar & Co. Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 22nd January 2004

No. 267/14411/560-276.—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jogendra C. Thakkar & Co. Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Litcon Navais Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 22nd January 2004

No. 265/58760/560-277.—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Litcon Navais Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prabhudayal Ramkishan Investment Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 22nd January 2004

No. 264/86529/560-278.—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Prabhudayal Ramkishan Investment Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Snowball Trading Co. Ltd.

Mumbai-400002, the 22nd January 2004

No. 263/125907/560-279.—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Snowball Trading Co. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Newport Traders Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 22nd January 2004

No. 273/75226/560-280.—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Newport Traders Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. C. D'souza Clearing & Forwarding Co. Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 22nd January 2004

No. 274/51028/560-281.—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. C. D'souza Clearing & Forwarding Co. Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Uranus Marketing Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 22nd January 2004

No. 276/120348/560-282.—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Uranus Marketing Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Balaji Pooja Services Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 22nd January 2004

No. 275/94576/560-283.—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of M/s. Balaji Pooja Services Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lodaya Share Services Ltd.

Mumbai-400002, the 22nd January 2004

No. 277/79678/560-284.—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lodaya Share Services Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. P & O Containers (India) Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 22nd January 2004

No. 289/36315/560-285.—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. P & O Containers (India) Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Star Fruit Products Pvt. Ltd.

Mumbai-400002, the 22nd January 2004

No. 287/14490/560-286.—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Star Fruit Products Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra